



नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड Non-Collegiate Women's Education Board

दिल्ली विश्वविद्यालय

University of Delhi



Welcome Note

“Educate your women first and leave them to themselves; then they will tell you what reforms are necessary for them”- Swami Vivekanand

Dear Students

Welcome to the Non-Collegiate Women's Education Board (NCWEB) family! As you enter a new phase in the journey of your life, NCWEB heartily looks forward to be handholding in your pursuit to educate yourself. I congratulate you to have endured through the extraordinary circumstances due to the pandemic and successfully completed your class XII examinations. NCWEB is a unique institution of University of Delhi, dedicated to empowering women through education. Our 26 Undergraduate Centres are present in the premises of the colleges of University of Delhi, spread across the length and breadth of the capital city of New Delhi. This institution gives an opportunity to pursue higher education, to all the Delhi based girls who are not able to pursue regular college due to various reasons. The Centres are very well managed by faculty and staff of the colleges where they are located. Your classes at present are being held in an online mode. Carrying forward the vision of the Hon'ble Vice Chancellor, University of Delhi, Prof. Yogesh Singh, many cultural and extra-curricular activities are to be organised by the NCWEB Centres and the Board, for your holistic development. We look forward to facilitate you in every possible way for the next three years. Wishing you all the very best!

Geeta Bhatt

Director, NCWEB



नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड Non-Collegiate Women's Education Board



दिल्ली विश्वविद्यालय
University of Delhi

स्वागत संदेश

“सर्वप्रथम अपनी महिलाओं को शिक्षित करें और उन्हें स्वतंत्र कर दें; तब वे आपको बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक हैं”- स्वामी विवेकानंद

प्रिय विद्यार्थियों

नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) परिवार में आपका स्वागत है! आप जब अपने जीवन की यात्रा के एक नए चरण में प्रवेश कर रही हैं, एनसीडब्ल्यूईबी आपकी शिक्षा को सुगम बनाने में और आपके सहयोग के लिए तत्पर है। मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने महामारी के कारण उत्पन्न, असाधारण परिस्थितियों में भी धैर्य और परिपक्वता से, अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। एनसीडब्ल्यूईबी, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अनूठा संस्थान है, जो शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। हमारे 26 स्नातक केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के परिसर में मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं। यह संस्था दिल्ली की उन सभी लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है जो विभिन्न कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा पाती हैं। केंद्रों का सुगम प्रबंधन, उन कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जहां वे स्थित हैं। वर्तमान में आपकी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चल रही हैं। माननीय कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रो. योगेश सिंह की परिकल्पना के अनुसार, आपके समग्र विकास के लिए एनसीडब्ल्यूईबी केंद्रों और बोर्ड द्वारा कई सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। हम अगले तीन वर्षों के लिए, हर संभव तरीके से, आपकी शिक्षा को सुगम बनाने और उससे जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। आप सभी का अभिनन्दन एवं शुभकामनाएं!

गीता भट्ट

निदेशक, एनसीडब्ल्यूईबी